

ting the work at Kalidaspur block? When will the survey be completed in these two areas and when will the work start?

श्री कनेवर निख : सभी हम लोच केवल कालिदासपुर ब्लॉक की ही ले रहे हैं और इसमें 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 19 बोखीज किये गये हैं और इस क्लियर कार्य-क्षेत्र के द्वारा ग्रेड एक के 9.38 मिलियन टन और 8.78 मिलियन टन ग्रेड तीन के खंडार पता गये हैं। माननीय सख्त ने पूछा है कि इस में कर्मचारियों की संख्या कितनी रहेगी। करीब 1136 कर्मचारी इस में काम करने ऐसी रिपोर्ट तैयार होगी।

Iraqi Proposal to purchase Indian Films

*208. SHRI DAJIBA DESAI: Will the Ministry of ENERGY be pleased to state:

(a) the procedure followed by Government for distribution of coal to actual users in various States;

(b) whether complaints have been received by Government from the actual users form defferent States regarding proper and timely distribution; and

(c) what steps have been taken to remove the difficulties in this behalf?

अर्थात् अज्ञानत्व में राज्य सभा (श्री कनेवर निख) :

(क) कोयले के वितरण के संबंध में मुख्यतः तीन नियामक माध्यम हैं तथा—(1) प्रायोजन की प्रणाली, (2) उद्योगों में बरीयता देने की प्रणाली और (3) देशों के नवीकरण नियम। छोटे उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं की अदरतें राज्य सरकारें प्रायोजित करती हैं और ऐसे उपभोक्ताओं को कोयले का वितरण राज्य सरकारें ही अपने नियमों और शर्तों के अधीन करती हैं।

(ख) कुछ उद्योगों से ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि उन्हें अभाव कोयला नहीं मिला है।

(ग) कोयले का वर्तमान उत्पादन और खान खुदमोद स्टॉक (जो लगभग 12.9 मिलियन टन है) सभी उपभोक्ताओं की अदरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त है। देश के लोगों की सप्लाई में सुधार के लिए देशों के साथ अतिरिक्त सम्पर्क रखा जा रहा है। देशों द्वारा कोयले जाने वाले कोयले में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए कोयला कंपनियां (सम्बन्ध लोगों के अन्तर्गत पर) सड़क के भी कोयला से जाने की अनुचित उपभोक्ताओं को दे रही है।

SHRI DAJIBA DESAI: The procedure mentioned by the hon. Minister is sponsorship and priority. According to my information from Maharashtra, it is not correct. Even the thermal power stations and certain important industries are not getting coal even though they have got priority. As regards sponsorship, the Maharashtra Government has sponsored the required quota. But the Government of India has reduced the quota. Therefore, there is a shortage of coal in Maharashtra so much so that the thermal power stations have stocks for only one day. Secondly, the small-scale industries from Maharashtra have been allowed to take their coal by trucks. But their experience is that they have to give on money at the coal fields. Some Members of Parliament have complained to the Minister that they had to pay Rs. 60 per tonne. May I ask the Minister whether he is prepared to enquire into these allegations?

श्री कनेवर निख : अगर कोई निश्चित कारण बताया तो उसकी जांच की जाएगी।

SHRI DAJIBA DESAI: The Members of Parliament have written a letter.

MR. SPEAKER: He said he will enquire into the matter.

SHRI DAJIBA DESAI: The sponsorship system that he has adopted for the distribution of coal is very hard on small-scale industries, specially in Maharashtra, where the centres are Nagpur, Poona, Aurangabad and Kolhapur. Since the sponsorship scheme has not worked very well, is he prepared to have coal dumps in these places.

श्री कनेवर निख : व्यावहारिक दृष्टि से कोयला इन्सुलेशन करना सम्भव नहीं होता। इसलिए सरकार का विचार है कि कोयला इन्सुलेशन न किए जाए।

श्री ० शुरी राज सख्तकार नोबारा : कोयले में बहुत अभाव और खतरा है। मैं सरकार से और भी बतको मांगता हूँ। माननीय कोयला मंत्रालय के कर्मचारी बनाई हैं लेकिन कोयला और भी कम रहा है। यह बताने के काम

- जो कोयला जाता है वह पूर्ण ब्लैक में निकलता है इस बातसे इंदो का काम बाई की प्रति ह्जार हो गया है जब कि उसके भाव विद्युती सरकार के बत में 140 रुपये प्रति ह्जार थे। कोयला की कमी और उसकी ब्लैक की वजह से जनता सरकार के प्रति लोगों की निराशा बहुत बढ़ गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह कोयला पर ब्लैक लगा जाता है और कोयला ब्लैक में बिकता है इसको रोकने के लिए क्या क्या कर रहे हैं ?

श्री जनेश्वर शिंदे : हाकारिक कोयला काला होता है, लेकिन उसे ब्लैक में नहीं बिकना चाहिये, यह सरकार को निश्चय राय है, फिर भी अगर कोयला ब्लैक में बिकता है तो यह राज्य सरकारो का विषय है।
(व्यवधान)

एक कामनीय प्रश्न : यह विषय राज्य सरकार पर बिल्कुल नहीं है।

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: I have sympathy individually for the hon. Minister. But the reality of the situation is that the hon. Minister has expressed nothing but complacency. I do not know what happens to the big industry, but thousands of small units are literally dying. They are incurring heavy losses because of shortage of coal and the entire arrangement of distribution of coal is so bad that the Energy Ministry is throwing the responsibility on the Railways and the Railways are throwing the responsibility on the coal industry. I would like to know whether the hon. Minister will look into the heavy losses suffered by thousands of small units and will be prepared to take responsibility to supply coal on priority basis to the small-scale units throughout the country.

श्री जनेश्वर शिंदे : यह सही है कि इस वर्ष कोयला उद्योग को लगभग 800 बैरन प्रतिदिन कम मिले हैं और इनसे बोरी-बहुल परेशानी आई होगी, लेकिन एलसी मिलिट्री में लगातार सम्पन्न बत रहा है और इस बात की कोशिश हो रही है और हम लोगों की उम्मीद भी है कि बहुत जल्दी ही हम इस कमी को दूर करने और देश में आवश्यक के आश्वासन दिया है कि अतिकीम यह पूरे बैरन होंगे।

All Broadcasts

*210. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that All India Radio is not heard in U.S.A., Japan and in many other countries;

(b) if so, in how many countries people cannot hear All India Radio;

(c) what specific steps Government have taken to see that All India Radio can be heard in all the countries; and

(d) why no action has been taken by the Government so far in this direction?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) While the external service of All India Radio does not reach U.S.A., it is heard in Japan and many other countries. The General Overseas Services of All India Radio in English in the morning and afternoon are directed towards Japan and the East. The reception is reported to be satisfactory at least on one frequency.

(b) A.I.R. directs its external services to about 55 countries. The reception varies from time to time depending mainly on the level of interference due to crowding of short-wave bands.

(c) (i) In order to augment the external services of A.I.R. two more short-wave transmitters of 250 KW power each with additional aerial system are proposed to be installed.

(ii) In addition, a proposal to instal two Shortwave transmitters of 500 KW power each has also been approved in principle.

(iii) An Inter-Ministerial Group has been set up by Government to undertake a study and to determine